

CURRICULUM VITAE

SUBHAM SINGH
MOBILE: 7738818423
EMAIL: 31shubham1999@gmail.com

POST APPLIED FOR: OS

OBJECTIVE:

TO OBTAIN CADETSHIP TO IMPART BEST OF MY KNOWLEDGE IN YOUR FIRM.

DOCUMENTS AND CERTIFICATES:

DOCUMENTS	NUMBER	DATE OF ISSUE	PLACE OF ISSUE
INDIAN CDC	MUM 431453	04/06/2021	MUMBAI
PASSPORT	U4643729	02/03/2020	MUMBAI
INDOS NUMBER	21ZM3659	09/04/2021	MUMBAI

CERTIFICATES	NUMBER	DATE OF ISSUE	PLACE OF ISSUE
EFA	2070436101210116	19/04/2021	MUMBAI
PSSR	2070436101210116	19/04/2021	MUMBAI
FPFF	2070436101210116	19/04/2021	MUMBAI
PST	2070436101210116	19/04/2021	MUMBAI

EDUCATION:

STANDARD (YEAR)	INSTITUTE	BOARD	GRADE/PERCENTAGE
HSC	KARNATAKA STATE COUNCIL OF INTERMEDIATE AND HIGHER EDUCATION	STATE BOARD	61.50%
SSC	KENDRIYA VIDYALAYA LONAVALA	CBSE	50%

EXPERIENCE

SHIP NAME	PLACE	DATE/ON	DATE/OFF
MV/NAMO	TURKEY	01/11/2022	10/04/2023

PERSONAL DETAILS:

GENDER: MALE

NATIONALITY: INDIAN

DOB: 19/02/1999

LAUNGUAGES: HINDI,ENGLISH

FATHER S NAME: MAHIPAL SINGH



Certificate No. 2070436101210116 (Part 'B')

Naval Maritime Academy West

INS Kunjali, R C Church, , Opp. Kendriya Vidyalaya No.3,,Colaba,

City : Mumbai

District : Mumbai

State : Maharashtra

Pin : 400005

MTI No. : 207043

Tel : 09372535595

Fax : 22185103

E-mail : namac@namacindia.com

THIS IS TO CERTIFY THAT Singh Subham

Date of Birth 19/02/1999 (dd/mm/yyyy)

Indian National Database of Seafarers (INDoS No.) 21ZM3659

has successfully completed a training course held from 10/05/2022 to 11/05/2022 for :

Certificate of Proficiency in Personal Survival Techniques, Fire Prevention & Fire Fighting, Elementary First Aid and Personal Safety and Social Responsibilities

The Course is approved by the Directorate General of Shipping and meets the requirements laid down in Regulation A-VI/1, Section A-VI/1 Para 2.1, Table A-VI/1-1, Table A-VI/1-2, Table A-VI/1-3 & Table A-VI/1-4 of the STCW Convention, 1978, as amended.

This certificate is issued under the authority of the Directorate General of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India.

Date of Issue : 11/05/2022

Date of Expiry : NA

Signature of Candidate

Digitally signed by KIRTIKUMAR
SHANKAR SHETTY
Date: 2022.05.17 15:50:32 +05:30

Name and Signature of Course In-charge

Capt. Kirtikumar Shankar Shetty



Digitally signed by NARAYANA
NIPPANI RAO
Date: 2022.05.18 11:30:10 +05:30

Name and Signature of Dean / Principal

Cmde Narayana Nippani Rao

Note This Part 'B' certificate is generated in accordance with DGS Order 17 of 2021 dated 01.05.2021 valid for a period of Unlimited from the date of issue of Part 'A' certificate



Certificate No. 2070436621210167

Naval Maritime Academy West

INS Kunjali, R C Church, , Opp. Kendriya Vidyalaya No.3,,Colaba,

City : Mumbai

District : Mumbai

State : Maharashtra

Pin : 400005

MTI No. : 207043

Tel : 02222151790

Fax : 22153516

E-mail : namac@namacindia.com

THIS IS TO CERTIFY THAT Singh Subham

Date of Birth 19/02/1999 (dd/mm/yyyy)

Indian National Database of Seafarers (INDoS No.) 21ZM3659

has successfully completed a training course held from 22/04/2021 to 23/04/2021 for :

Certificate of Proficiency in Security Training for Seafarers with Designated Security Duties

The course is approved by the Directorate General of Shipping and meets the requirements laid down in Regulations VI/6 paragraph 4 to 6, Section A-VI/6 Paragraph 6 to 8 and Table A-VI/6-2 of the STCW Convention, 1978, as amended. The candidate has also met the additional criteria specified in the STCW Convention, applicable to the issue of the certificate.

This certificate is issued under the authority of the Directorate General of Shipping, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India.

Date of Issue : 24/04/2021

Date of Expiry : NA

Signature of Candidate

Digitally signed by MELROY J R
MASCARENHAS
Date: 2021.04.26 17:22:21 +05:30

Name and Signature of Course In-charge
Capt. Melroy Joseph Roma Mascarenhas



Digitally signed by NARAYANA
NIPPANI RAO
Date: 2021.04.26 17:48:25 +05:30

Name and Signature of Dean / Principal
Cmde Narayana Nippani Rao

10
5.7.2021

टीके अथवा रोगनिरोधन का अंतरराष्ट्रीय प्रमाण-पत्र
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS
CERTIFICATE INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE PROPHYLAXIE

यह प्रमाणित किया जाता है कि (नाम) This is to certify that (name) SINBH SUBHAM जन्म तिथि Date of birth 19/02/1999 लिंग Sex MALE
Nous certifions que (nom) ne(e) le de sexe
राष्ट्रीयता Nationality INDIAN राष्ट्रीय पहचान पत्र, यदि आवश्यक हो national identification document, if applicable
et de nationalite document d'identification national, le cas échéant 04643729
तथा जिसके हस्ताक्षर यहाँ दिये गये हैं whose signature follows [Signature]
dont la signature suit
को निर्दिष्ट तारीख को अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम के अनुसार टीकाकरण किया गया है (बीमारी का नाम) पील ज्वर
has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against : (name of disease or condition) **YELLOW FEVER** in accordance with the
International Health Regulations.
a été vaccine(e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre (nom de la maladie ou de l'affection) conformément au Règlement
sanitaire international.

टीके/रोगनिरोधन का नाम Vaccine or Prophylaxis. Vaccin ou agent Prophylactique.	तारीख Date	टीका लगाने वाले के हस्ताक्षर और उसका व्यावसायिक पद Signature and professional status of supervising clinician. Signature et titre du clinicien responsable.	टीके/रोगनिरोधन का निर्माता और उसकी बैच संख्या Manufacturer and batch no. of vaccine or prophylaxis. Fabricant du vaccin ou de l'agent prophylactique et numero du lot.	प्रमाण पत्र की वैधता से : तक : Certificate valid from : until : Certificate valable à partir du : jusqu'à :	टीका लगाने वाले केंद्र की सरकारी मोहर Official stamp of the administering centre. Cachet officiel du centre habilité.
पील ज्वर का टीका YELLOW FEVER VACCINE	15 JUL 2021	<u>[Signature]</u> डॉ. मुहम्मद कासिम के.के.यु. DR. MOHAMMED KASIM K. K. U. चिकित्सा अधिकारी MEDICAL OFFICER पोर्ट पतन स्वास्थ्य संगठन PORT HEALTH ORGANISATION भारत सरकार, मुंबई GOVT. OF INDIA, MUMBAI	Institute of Technology es Immunobiologicals Blo- Manguinhos, Brazil Lot No..... L-190VFCO 112	प्रमाण प्रय वैधता CERTIFICATE VALID से/FROM 15 JUL 2021 तक - टीका देने वाले व्यक्ति के आजीवन UNTIL - LIFE OF PERSON VACCINATED	



Baart sarkar
GOVERNMENT OF INDIA
naaivakabllka BaartIya raITiya DaTabasa
INDIAN NATIONAL DATABASE OF SEAFARERS
nava Bavana, 10, ranajal Baa[- kanaanal maaga;
NAU BHAVAN, 10, R.K. MARG
badaaD- [sTt / **BALLARD ESTATE, namba[- / Mumbai - 400 001**
f@sa / Fax : (9122) 22618078 [- raa / E-Mail : lbsindos@vsnl.net

pinaiNat ikhya jaata h0ik Eal

This is to certify that Mr.\Mrs.\Miss. SINGH SUBHAM

janaitiqa

Date of Birth 19/02/1999

(jaarl krnaaalaa d6a)

of (issuing Country) INDIA

sal. DI. sal. salt

C.D.C. No. : MUM 431453

kaa [Daa salt

has been allotted INDoS No : 21ZM3659

pasapaT- salt

P.P. No. ---

AavaIT t ikhya gayaa h0.

Address :

City COLABA,

State : MAHARASHTRA

Postal Code 400005

Phone No. :7738818423

jaarl krnaakl itiqa

Date of issue

Computer generated certificate, signature is not required.

U4643729<3IND9902196M3003013<<<<<<<<<<<<<<<0

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

MAHIPAL SINGH

माता का नाम / Name of Mother

BEENA SINGH

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

R 21-10 B, NEW NAVY NAGAR

COLABA, MUMBAI

PIN: 400005, MAHARASHTRA, INDIA

पुराने पासपोर्ट का न. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

फाइल न. / File No.

B03064558597620



U4643729

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



चलत उन्मीचन प्रमाणपत्र
भारत सरकार
सत्यमेव जयते

यह चलत उन्मीचन प्रमाणपत्र

बाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मीचन प्रमाणपत्र) नियम, 2017 के
अधीन जारी किया गया है और 1958 की अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
कन्वेंशन संख्या 108 के अनुरूप है।

This Continuous Discharge Certificate

is issued under Merchant Shipping (Continuous Discharge Certificate)

Rules 2017 and is in conformity with the International

Labour Organisation Convention No. 108 of 1958.

CONTINUOUS DISCHARGE CERTIFICATE
GOVERNMENT OF INDIA

जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर /

Signature of issuing authority

नाम / Name

पदाभिधान / Designation

मुद्रा / Seal



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

सीफायरर का पूरा नाम / Name of Seafarer in full

SINGH SUBHAM

सी.डी.सी. संख्या / CDC No.

MUM 431453

शिपिंग मास्टर कार्यालय / Shipping Master Office

MUMBAI

जारी करने की तिथि / Date of issue

04/06/2021

समाप्ति की तिथि / Date of expiry

03/06/2031

जन्मतिथि / Date of birth

19/02/1999

जन्मस्थान / Place of birth

MUZAFFARNAGAR

राष्ट्रियता / Nationality

Indian

लिंग / Sex

M

उँचाई (कद) से.मी. में / Height in Cms :

155

आंखों का / बालों का रंग :

Colour of eyes / Hair : Black / Black

इन्डोस सं. / INDoS No. :

212M3659

पहचान चिन्ह /

Identification mark A mole on right -

side back

सीफायरर के हस्ताक्षर
Seafarer's Signature

[illegible]

सूचक

[illegible]



सीफायरर का स्थायी पता
PERMANENT ADDRESS OF SEAFARER

R 21-10 B,, New Navy Nagar,

Colaba,

Mumbai, Maharashtra, 400005

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो) / Tel. No. (If any)

7738818423

ई-मेल (यदि कोई हो) / E-mail (If any)

31shubham1999@gmail.com

सीफायरर का निकट सम्बन्धी
NEXT OF KIN OF SEAFARER

नाम / Name Mr. Mahipal Singh

सम्बन्ध / Relationship Father

पता / Address R 21-10 B,

New Navy Nagar,, Colaba,

Mumbai Maharashtra

400005

टेलीफोन नं. (यदि कोई हो) / Tel. No. (If any)

7045667248

ई-मेल (यदि कोई हो) / E-mail (If any)

31shubham1999@gmail.com



17